

सुनी सुनी आँखे भर कर मैया तुझको पुकारे

सुनी सुनी आँखे भर कर मैया तुझको पुकारे ,
ममता का कोई मोल नहीं रे जगत के पालनहार

मेरे बंसी वाले कृष्ण कन्हैयाँ दूँढे तुझे ममता मेरी,
सुन विनती मेरी देती हु दुहाई ,
आखिर में मैं माँ हु तेरी ओ मेरे बंसी वाले

भरी माखन से भरी मटकियाँ किस को जाके खिलाऊ,
आँचल से झलके है ममता किसपे जाके लुटाये
दिल के टुकड़े सुन ले दिल में होती पीड गनेरी
मेरे बंसी वाले कृष्ण कन्हैयाँ दूँढे तुझे ममता मेरी,

सुना आँगन सुनी गलियाँ सुना तट नदियाँ का
सुख गया हर फूल और पता इस दिल की भगीया का
आस की डोरी टूट न जाए करते काहे द
मेरे बंसी वाले कृष्ण कन्हैयाँ दूँढे तुझे ममता मेरी,

कब से तेरी राह निहारु पथरा गई है अखियाँ
कब आओ गे पूछे सारे ग्वाल बाल और सखियाँ दीप ताज फिर मिल जाए गे
मिले गी न माँ तेरी
मेरे बंसी वाले कृष्ण कन्हैयाँ दूँढे तुझे ममता मेरी,

<https://bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/19648/title/suni-suni-ankhe-bhar-kar-maiya-tujhko-pukaare>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |